



6

ea i qi

पाठगत मंत्रों का समूह "मंत्रपुष्प" नाम से जाना जाता है। सामान्यतः पूजा-अर्चना के अन्त में पुष्प अर्पित करते समय इनको प्रस्तुत किया जाता है। यह यजुर्वेद के तैत्तिरियारण्यक का भाग है। इसमें जल, वायु, सूर्य, चन्द्रमा, तारों, बादल और समयादि के गूढ़ ज्ञान को बताया गया है जिसके बहुत अधिक लाभ कहे गये हैं।



mīś ;

यह पाठ पढ़ने के बाद आप सक्षम होंगे:

- मंत्र पुष्प का उच्चारण कर पाने में; और
- मंत्र पुष्प का भावार्थ समझ पाने में ।



6.1 eā iḍi

योऽपां पुष्पं वेदं । पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति ।

चन्द्रमा वा अपां पुष्पम् । पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति ।

य एवं वेदं । योऽपामायतनं वेदं । आयतनवान् भवति ॥ १॥

yōpām puśhpam vedā puśhpāvān prajāvān paśumān bhavati |

chandramā vā apām puśhpam | puśhpāvān prajāvān paśumān bhavati |

ya evam vedā | yoapāmāyatanaṁ vedā | āyatanāvān bhavati |

जो जल के पुष्पों को जानता है, वह पुष्पवान, प्रजावान (सन्तान की प्राप्ति) तथा पशुमान (पशु आदि सम्पदा) होता है। चन्द्रमा जल का पुष्प है। जो इस तथ्य को जानता है वह पुष्पवान, प्रजावान और पशुमान होता है। जो जल के स्रोत को जानता है वह अपने आप में स्थापितवान होता है। अर्थात् मनोबल युक्त होता है।

अग्निर्वा अपामायतनम् । आयतनवान् भवति ।

योऽग्नेरायतनं वेदं । आयतनवान् भवति ।

आपो वा अग्नेरायतनम् । आयतनवान् भवति ।

य एवं वेदं । योऽपामायतनं वेदं । आयतनवान् भवति ॥ २॥



agnirvā apāmāyatānaṃ | āyatānavān bhavati |

yōgnerāyatānaṃ vedā | āyatānavān bhavati |

āpovā agnerāyatānaṃ | āyatānavān bhavati |

ya evaṃ vedā | yōpāmāyatānaṃ vedā | āyatānavān bhavati |

अग्नि जल का स्रोत है। यह जो जानता है वह स्वयं में बलवान और मनोबल युक्त होता है। जल अग्नि का स्रोत है, यह जो जानता है वह मनोबल युक्त होता है। जो जल के स्रोत को जानता है वह मनोबल युक्त होता है।

वायुर्वा अपामायतनम्। आयतनवान् भवति ।

यो वायोरायतनं वेदं । आयतनवान् भवति ।

आपो वै वायोरायतनम्। आयतनवान् भवति ।

य एवं वेदं । योऽपामायतनं वेदं । आयतनवान् भवति ॥ ३॥

vāyurvā apāmāyatānaṃ | āyatānavān bhavati |

yo vāyorāyatānaṃ vedā | āyatānavān bhavati |

āpo vai vāyorāyatānaṃ | āyatānavān bhavati |

ya evaṃ vedā | yōpāmāyatānaṃ vedā | āyatānavān bhavati |

वायु जल का स्रोत है। यह जो जानता है वह मनोबल युक्त होता है। जल वायु का स्रोत है। यह जो जानता है वह बलवान होता है। जो



जल के स्रोत को जानता है वह मनोबल युक्त होता है ।।

असौ वै तपन्नपामायतनम् । आयतनवान् भवति ।

योऽमुष्य तपत आयतनं वेद । आयतनवान् भवति ।

आपो वा अमुष्य तपत आयतनम् । आयतनवान् भवति ।

य एवं वेद । योऽपामायतनं वेद । आयतनवान् भवति ॥ ४ ॥

asau vai tapānnapāmāyatānaṃ āyatānavān bhavati |

yōmuśhyatapāta āyatānaṃ vedā | āyatānavān bhavati |

āpo' vā amuśhyatapāta āyatānaṃ āyatānavān bhavati |

ya evaṃ vedā | yōpāmāyatānaṃ vedā | āyatānavān bhavati |

तपता हुआ सूर्य जल का स्रोत है । यह जो जानता है वह वीर्यवान् होता है । जो तपते हुए सूर्य का स्रोत जानता है वह मनोबल युक्त होता है । जल तपते हुए सूर्य का आयतन है । जो यह जानता है वह आयतनवान् होता है । जो जल के स्रोत को जानता है वह मनोबल युक्त हातो है ।

चन्द्रमा वा अपामायतनम् । आयतनवान् भवति ।

यश्चन्द्रमस आयतनं वेद । आयतनवान् भवति ।

आपो वै चन्द्रमस आयतनम् । आयतनवान् भवति ।

य एवं वेद । योऽपामायतनं वेद । आयतनवान् भवति ॥ ५ ॥



chandramā vā apāmāyatānam | āyatānavān bhavati |
 yaḥ chandramāsa āyatānaṃ vedā | āyatānavān bhavati |
āpo vai chandramāsa āyatānaṃ | āyatānavān bhavati |
 ya evaṃ vedā | yöpāmāyatānaṃ vedā | āyatānavān bhavati |

चन्द्रमा जल का स्रोत है। जो यह जानता है वह बुद्धिमान होता है।
 जल चन्द्रमा का आयतन है। जो यह जानता है वह मनोबल युक्त
 होता है। जो जल के स्रोत को जानता है वह वीर्यवान, मनोबल युक्त
 होता है।

नक्षत्राणि वा अपामायतनम्। आयतनवान् भवति ।
 यो नक्षत्राणामायतनं वेद। आयतनवान् भवति ।
 आपो वै नक्षत्राणामायतनम्। आयतनवान् भवति ।
 य एवं वेद । योऽपामायतनं वेद । आयतनवान् भवति ॥ ६॥

nakśhtrātrāṇi vā apāmāyatānaṃ | āyatānavān bhavati |
yōnakśhtrātrāṇāmāyatānaṃ vedā | āyatānavān bhavati |
āpo vai nakśhātrāṇāmāyatānaṃ | āyatānavān bhavati |
 ya evaṃ vedā | yöpāmāyatānaṃ vedā | āyatānavān bhavati |



तारें जल का स्रोत हैं। जो यह जानता है वह मनोबल युक्त होता है।
जल तारों का आयतन है जो यह जानता है, वह मनोबलशाली होता
है। जो जल में स्रोत को जानता है। वह बलशाली होता है।

पुर्जन्यो वा अपामायतनम्। आयतनवान् भवति ।

यः पुर्जन्यस्यायतनं वेद । आयतनवान् भवति ।

आपो वै पुर्जन्यस्यायतनम्। आयतनवान् भवति ।

य एवं वेद । योऽपामायतनं वेद । आयतनवान् भवति ॥ ७॥

parjanya vā apāmāyatanaṃ | āyatānavān bhavati |

yaḥ parjanyaśyāyatanaṃ vedā | āyatānavān bhavati |

āpo vai parjanyaśyāyatanaṃ | āyatānavān bhavati |

ya evaṃ vedā | yōpāmāyatanaṃ vedā | āyatānavān bhavati |

बादल जल के स्रोत है। जो यह जानता है वह बलशाली होता है।

जल बादलों का आधार है। जो यह जानता है वह बलवान होता है।

जो जल के स्रोत को जानता है। वह बलवान होता है।

संवत्सरो वा अपामायतनम्। आयतनवान् भवति ।

यस्संवत्सरस्यायतनं वेद । आयतनवान् भवति ।

आपो वै संवत्सरस्यायतनम् । आयतनवान् भवति ।

य एवं वेद। योऽप्सु नावुं प्रतिष्ठितां वेद । प्रत्येव तिष्ठति ॥ ८॥



saṃvatsaro vā apāmāyatānaṃ | āyatānavān bhavati |
yaḥ saṃvatsarasyāyatānaṃ vedā | āyatānavān bhavati |
āpo vai saṃvatsarasyāyatānaṃ vedā | āyatānavān bhavati |
 ya evaṃ vedā | yōpsu nāvaṃ pratiśhṭhitāṃ vedā | pratyeva tishṭhati |

संवत् (वर्षा युक्त मौसम) जल का स्रोत है। जो यह जानता है वह बलवान होता है। जल ही वर्षा के मौसम का आधार होता है। यह जो जानता है वह मनोबल युक्त होता है। जो यह जानता है कि बेडा पार लगाने वाली नाव है, वह उस नैया में स्थित हो जाता है।

ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिनै । नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे ।
 स मे कामान् काम कामाय मह्यम् । कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु ।
 कुबेराय वैश्रवणाय । महाराजाय नमः ।

om rājādhirājāya prasaḥya sāhinē | namo vayaṃ vaiśravaṇāya kurmahe |
 sa me kāmān kāma kāmā'ya mahyaṃ | kāmeśvaro vaiśravaṇo dādātu |
kuberāya vaiśravaṇāya | mahārājāya namah |

सम्राटों के सम्राट, जो सभी नियमों के प्रदाता हैं, जो सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं, हमारी इच्छाएं पूर्ण करने और हमें सम्पन्न बनाने के लिए



हमें आर्शिवाद दें। ओ कुबेर देव! हम आपकी स्तुति करते हैं। हे सम्राटों के सम्राट हम आपको नमस्कार करते हैं।



ikBxr izu& 1-1

(1) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –

1. यौऽपां पुष्पं वेदं। प्रजावान् पशुमान् भवति ।
2. यौऽग्नेरायतनं वेदं । भवति ।
3. यौऽमुष्यु आयतनं वेदं ।
4. वा अपामायतनम्।
5. य एवं वेदं। यौऽप्सु नावं वेदं । प्रत्येव तिष्ठति ॥



vki us D; k I h[kk\

- मंत्र पुष्प का उच्चारण करना ।
- मंत्र पुष्प का भावार्थ ।



ikBxr izu

1. मंत्र पुष्प का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए ।



mUkj ekyk

6.1

(1)

1. पुष्पवान्
2. आयतनवान्
3. तपत
4. पर्जन्यो
5. प्रतिष्ठितां

d{kk & 4



fVli .kh